



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2002/चैत्र 21, 1924

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2002/CHAITRA 21, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002

सं. 25/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 276(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व का माल। अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 64/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना उपाबंध सारणी में, कम संख्या 20 और तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित, निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)
" 21	सभी माल	यदि— (क) उक्त माल भारतीय नौसेना को युद्धपोत के विनिर्माण में प्रयोग के लिए प्रदाय किया जाता है, तथा (ख) उक्त माल के निकासी से पूर्व, भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल पद के अधिकारी से उन्पून पदाधिकारी या भारतीय नौसेना के किसी अन्य अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समक्ष हो, द्वारा यह प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करे उक्त माल, उक्त प्रयोजन के लिए आशयित है। ”

[फा. सं. 349/3/2002-टी.आर.यू.]

जी. डी. लोहानी, अव्वर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं० 64/95—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा०का०नि० 256 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995] द्वारा प्रकाशित हुई थी, तथा उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 46/2001—सीमाशुल्क, तारीख 25 सितम्बर, 2001 [सा०का०नि० 690 (अ), तारीख, 25 सितम्बर, 2001] द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2002

No. 25/2002-CENTRAL EXCISE

**G.S.R. 276(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995, namely:-

In the Table annexed to the said notification, after S. No. 20 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"21. All goods.	If,-	
	(a)	the said goods are supplied for use in construction of warships of the Indian Navy; and
	(b)	before clearance of the said goods, a certificate from an officer not below the rank of a Rear Admiral of the Indian Navy or of any other officer of the Indian Navy equivalent to the Joint Secretary to the Government of India, to the effect that the said goods are intended for the said use, is produced to the proper officer .".

[F. No. 349/3/2002-TRU]  
G D LOHANI, Under Secy.

**Note :—** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995 [G.S.R. 256(E), dated the 16th March, 1995] and was last amended by notification No. 46/2001- Central Excise, dated the 25th September, 2001 [G.S.R. 690(E), dated the 25th September, 2001]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002

सं. 37/2002—सीमा शुल्क

सा. का. नि. 277(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहिता में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(1) क्रम सं० 173 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“173क.	6307.90	छाता के विनिर्माण में प्रयोग के लिए छाता कपड़ा पैनल	15 प्रतिशत	—	5”;

(2) क्रम सं० 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“174क.	66 03	छाता के विनिर्माण में प्रयोग के लिए भाग, कतरनें तथा एक्सेसरीज	5 प्रतिशत	—	5”;

(3) क्रम सं० 180 के सामने, स्तंभ 13। की प्रविष्टि में, मद सं० (iii) का लोप किया जायेगा;

(4) क्रम सं० 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“180क.	71	अपरिष्कृत हीरे (औद्योगिक या गैर औद्योगिक)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—”;

( 5) कम सं० 189 के सामने, स्तंभ 14। की प्रविष्टि के स्थान पर “ 550 रुपये प्रति दस ग्राम ” प्रविष्टि रखी जायेगी ।

[ फा. सं. बी-6/1/2002-टी.आर.यू. ]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा० का० नि० 118 ( अ) , तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 36/2002-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 2002 [सा० का० नि० 246 ( अ) , तारीख 3 अप्रैल, 2002] द्वारा किया गया ।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2002

#### No. 37/2002-CUSTOMS

G.S.R. 277(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(1) after S. No. 173 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 173A.	6307.90	Umbrella cloth panels for use in the manufacture of umbrellas	15%	-	5 ”;

(2) after S. No. 174 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 174A.	66.03	Parts, trimmings and accessories for use in the manufacture of umbrellas	5%	-	5 ”;

(3) against S.No.180, in the entry in column (3), item no. (iii) shall be omitted;

(4) after S.No.180 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 180A.	71	Rough diamonds (industrial or non-industrial)	Nil	Nil	- ”;

(5) against S.No.189, for the entry in column (4), the entry " Rs.550/- per 10 grams" shall be substituted .

[F. No. B-6/1/2002-TRU]  
G D. LOHANI, Under Secy.

**Note :-**The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 21/2002-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 [G.S.R. 118(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002] and was last amended by notification No.36/2002-Customs, dated 3<sup>rd</sup> April, 2002 [G.S.R. 246(E), dated the 3<sup>rd</sup> April, 2002] .

